

जातीय समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा और योजनाबद्ध उपाय

लीगल एड सर्विसेस काउंसिल (कानूनी सहायता सेवा परिषद)

लीगल एड सर्विसेस काउंसिल (LASC) सीमित साधनों वाले लोगों की कानून के समक्ष न्याय और समानता तक पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से कानून के शासन को बनाए रखने और बढ़ाने में योगदान करती है। LASC ने साधनों से वंचित व्यक्तियों के लिए उसके/उसकी कोर्ट में अंतिम अपील के संबंध में इन्कार की समीक्षा के इच्छा करने में सहायता के लिए कौंसल द्वारा प्रमाण-पत्र के प्रावधान के लिए एक सहायता स्कीम क्रियान्वित की है।

मौजूदा उपाय

- LASC पूछताछ सेवाएं चीनी और/या अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध करवाती है। LASC की वेबसाइट पर जानकारी चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है।
- LASC द्वारा प्रशासित सहायता स्कीम के नोटिस और आवेदन पत्र चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं।
- सहायता योजना के बारे सूचना और आवेदन पत्र का अनुवाद दस भाषाओं, अर्थात् बंगाली, हिंदी, बहासा इंडोनेशिया, नेपाली, पंजाबी, तागालोग, तामिल, थाई, उर्दू और वियतनामी में उपलब्ध है।
- अनुरोध करने पर, जहां उचित और व्यवहार्य हो आठ भाषाओं बहासा इंडोनेशिया, हिंदी, नेपाली, पंजाबी, तागालोग, थाई, उर्दू और वियतनामी में टेलीफोन पर दुभाषिया सेवा अल्पसंख्यक जातियों के लिए केंद्र (CHEER) के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी।

भविष्य के कार्य का आकलन

- LASC जहां आवश्यक होगा सुधार करने के लिए समय-समय पर इसकी सेवाओं की समीक्षा करेगी।

लिए जाने वाले अतिरिक्त उपाय

- LASC सार्वजनिक पूछताछ या सहायता योजना से संबंधित मामलों पर, जहां उपयुक्त और व्यवहार्य होगा, उपरोक्त वर्णित आठ भाषाओं में टेलीफोन दुभाषिया सेवा प्रदान करना जारी

रखेगी।

- LASC जातीय समानता पर स्टाफ की जागरूकता को बढ़ाने और विभिन्न जातियों के लोगों की पूछताछ को संभालने के लिए स्टाफ के भाग लेने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था जारी रखेगी।

उपरोक्त उपायों के बारे में कृपया श्रीमान हेनरी चैन (Mr Henry CHAN), एकज्युकेटिव ऑफिसर (LASC) से निम्नलिखित चैनलों के माध्यमों से संपर्क करें –

टेलीफोन नं. : 2838 5010
फैक्स नं. : 2838 5053
ईमेल : enquiry@lasc.hk

लीगल एंड सर्विसेस काउंसिल
जुलाई 2022